

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अक्टू 20	सितं 20	अक्टू 18	2024-25	2024
		1	2	3	4	%
II. बैंक ऋण (II+III)	16432164	15457887	17125371	17238250	4.9	11.5
	(15901477)	(14871457)	(16648962)	(16772605)	(5.5)	(12.8)
III. खाद्यान्न ऋण	23081	19841	19926	18654	-19.2	-6.0
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	16409083	15438046	17105445	17219596	4.9	11.5
	(15878397)	(14851616)	(16629037)	(16753951)	(5.5)	(12.8)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2071251	1909689	2167287	2205299	6.5	15.5
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3652804	3498502	3801604	3774252	3.3	7.9
	(3635810)	(3480987)	(3786279)	(3759186)	(3.4)	(8.0)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	681618	750825	749790	3.2	10.0
2.2 मध्यम	303998	280699	334412	335822	10.5	19.6
2.3 बड़े	2622490	2536185	2716366	2688640	2.5	6.0
3. सेवाएं	4592227	4245994	4736957	4784938	4.2	12.7
	(4490467)	(4122802)	(4654649)	(4704550)	(4.8)	(14.1)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	214259	245008	246407	7.1	15.0
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	24665	29760	30581	18.0	24.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	77513	75612	78753	79732	2.9	5.4
3.4 शिपिंग	7067	6620	7166	7782	10.1	17.6
3.5 विमानन	43248	39419	44458	46168	6.8	17.1
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	153150	177730	186251	11.4	21.6
3.7 व्यापार	1025752	960414	1072493	1079498	5.2	12.4
3.7.1 थोक व्यापार ¹	538744	499225	567242	571159	6.0	14.4
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	461188	505251	508339	4.4	10.2
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	445596	497333	507671	8.2	13.9
	(400470)	(359499)	(441714)	(452869)	(13.1)	(26.0)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1548027	1444263	1529006	1536655	-0.7	6.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	325626	322128	324354	321110	-1.4	-0.3
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	190547	203257	198320	-12.6	4.1
3.10 अन्य सेवाएं ³	998281	881996	1055250	1064193	6.6	20.7
	(978198)	(858939)	(1037408)	(1046715)	(7.0)	(21.9)
4. व्यक्तिगत ऋण	5331290	5002636	5596719	5647476	5.9	12.9
	(4919468)	(4557230)	(5219246)	(5278594)	(7.3)	(15.8)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	22178	23764	23640	-0.3	6.6
4.2 आवास	2718715	2561961	2845505	2871845	5.6	12.1
	(2331935)	(2144011)	(2490574)	(2525138)	(8.3)	(17.8)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	114983	125694	127533	1.8	10.9
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	7812	9546	9060	6.7	16.0
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	240635	271813	281392	9.5	16.9
4.6 शिक्षा	119380	110852	129116	130309	9.2	17.6
4.7 वाहन ऋण	589251	553141	617180	616405	4.6	11.4
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	98747	147081	154282	50.4	56.2
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1386921	1292327	1427020	1433009	3.3	10.9
	(1362113)	(1265407)	(1404553)	(1410905)	(3.6)	(11.5)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁴	2081856	1934682	2164159	2200460	5.7	13.7
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1974191	1849829	2057867	2076956	5.2	12.3
(iii) मध्यम उद्यम ⁶	490703	461739	543388	557829	13.7	20.8
(iv) आवास	755222	743033	750223	752216	-0.4	1.2
	(660572)	(643177)	(663719)	(665965)	(0.8)	(3.5)
(v) शिक्षा ऋण	62235	61110	62389	62673	0.7	2.6
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	5007	6778	7122	18.9	42.2
(vii) सामाजिक अवसरचना	2613	2607	1124	1120	-57.1	-57.0
(viii) निर्यात ऋण	11774	11844	11290	12094	2.7	2.1
(ix) अन्य	61336	59553	58561	58045	-5.4	-2.5
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1555743	1711473	1742896	5.8	12.0

टिप्पणियाँ:

- (1) डेटा अनंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा घास-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें बुनियादी बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।
- (2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।
- (3) 1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एएफए के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्य नहीं दर्शाए गए हैं।
- (4) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
- (5) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
- (6) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।